

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदहहत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

प्रार्थी शेषमणि त्रिपाठी पुत्र राजपत तिवारी ग्राम बौवापार थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.06.2021 को 07.30 बजे अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र सत्यशील 2. आशीष पुत्र सत्यशील 3 . सत्यशील तिवारी पुत्र अज्ञात 4. घनश्याम पुत्र लालसा तिवारी 5. आशुतोष पुत्र रविकान्त तिवारी समस्त निवासीगण ग्राम बौवापार थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा नाली के विवाद को लेकर घर में घुसकर गोली से मारकर अनूप पुत्र लालमणि तिवारी ग्राम बौवापार थाना बरदह आजमगढ़ की हत्या कर दिये व तीन लोगों को घायल कर दियो। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा०द०वि० 7 सी०एल०ए० एक्टपंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में मैं आज दिनांक 30.06.21 को प्र०नि० विनय कुमार मिश्रा मय मय हमराह का० एनुद्दीन फारुकी , का० अमित कुमार, रि०का० मेनहाज आलम म०का० पूनम पाल के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व पेण्डिंग मुकदमात मु०अ०स० 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा०द०वि० 7 सी०एल०ए० एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की विवेचना में मशरूफ होकर ग्राम बौवापार में मौजूद थे कि जरिये मुखविर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभि० घनश्याम तिवारी पुत्र लालसा तिवारी सा० बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजाब नेशनल बैंक ठेकमा के पास खड़ा होकर वाहन का इंतजार कर रहा है तथा कहीं बाहर जाने की फिराक में है इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखविर के उसके बताये हुए स्थान पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंची मुखविर खास द्वारा दूर से ही इशारा करके बताया गया कि सामने जो आदमी खड़ा है वही है और इतना कह कर मुखविर हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से उस व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया तथा उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम घनश्याम तिवारी पुत्र लालसा तिवारी सा० बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ – 63 वर्ष बताया चूकि अभि० उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि० है। अतः कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 11.30 बजे दिन में हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा०द०वि० 7 सी०एल०ए० एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

घनश्याम तिवारी पुत्र लालसा तिवारी सा० बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रमय हमराह